

Jos

Chapter 13

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
בְּיָמַי בָּאתָ זָקְנָה אָתָּה אֵלָיו יְהוָה וַיֹּאמֶר בְּיָמַי בָּא זָקֵן וַיְהוֹשֻׁעַ
दिनों-में आया-है बूढ़ा-हो-गया तू उससे यहीवा और-कहा दिनों-में आया बूढ़ा और-यहोशू
H3117 H0935 H2204 H0413 H3068 H0559 H3117 H0935 H2204 H3091

וְהָאָרֶץ וְנִשְׂאָרָה הַרְבֵּה-מְאֹד לְרִשְׁתָּהּ
और-देश बची-है और-यहोशू अधिकार-करने-को अत्यधिक बहुत-बहुत-बची-है
H3423 H3966 H7604 H0776

जब यहोशू बहुत बूढ़ा हो गया तो यहोवा ने उससे कहा, “यहोशू तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत सी भूमि पर अधिकार करना है।

2
זֹאת הָאָרֶץ הַנִּשְׂאָרָה כָּל-גְּלִילֹת הַפְּלִשְׁתִּים וְכָל-הַגִּישּׁוּרִי
यह देश बची-हुई सब-प्रदेश पलिशतियों और-सब-गशूरी
H1651 H3605 H6430 H1552 H3605 H7604 H0776 H2063

तुमने अभी तक गशूर लोगों की भूमि और पलिशतियों की भूमि नहीं ली है।

3
מִן-הַשִּׁיחֹר וְעַל-הָאֲשָׁר פָּנָּי מִצְרַיִם וְעַד-גְּבוּל עֶקְרוֹן צְפוֹנָה לְכַנְעַנִי
से-शीहोर पर-जो सामने मिस्र और-तक सीमा उत्तर-की-और एक्रोन उत्तर-की-और कनानी-की
H7883 H6440 H4714 H5704 H1366 H6138 H6828

וְהֶעֱקְרוּנִי וְהָאֲשָׁר וְהָאֲשָׁדוּדִי הָעֵזְתָּי פְּלִשְׁתִּים סַרְנֵי וְהַמְּנַשֵּׁת הַחֶשֶׁב
और-एक्रोनवाला गतवाला अशकलोनवाला और-अशदोदवाला गाज़ावाला पलिशतियों सरदार पांच गिना-जाती-है
H6139 H1663 H0832 H0796 H5841 H6430 H2568 H2803

וְהָעֵוִים
और-अव्वी
H5757

तुमने मिस्र की सीमा पर शिहोर नदी से लेकर उत्तर में एक्रोन की सीमा तक का क्षेत्र नहीं लिया है। वह अभी तक कनानी लोगों का है। तुम्हें राजा, अशदोद, अशकलोन, गत तथा एक्रोन पाँचों पलिशती के प्रमुखों को हराना है। तुम्हें उन अब्बी लोगों को हराना चाहिये।

4
מִתִּימֹן כָּל-אֶרֶץ הַכַּנְעֲנִי וּמְעָרָה אֲשָׁר לְצִדְדֵינִי עַד-אֶפְקָה עַד-גְּבוּל
दक्षिण-से सब-देश कनानी और-मआरा जो सीदोनियों-की तक-तक-अपका तक-सीमा
H8486 H3605 H0776 H4632 H5704 H0663 H5704 H1366

הָאֱמֹרִי
एमीरी
H0567

जो कनानी प्रदेश के दक्षिण में रहते हैं।

5
וְהָאָרֶץ הַגְּבֻלִי וְכָל-הַלְּבָנוֹן מִזְרָח הַשֶּׁמֶשׁ וְדָרְמִבְּעַל תַּחַת הַר-הַרְמוֹן עַד-לְבָא
और-देश गिब्ली और-सब-लबानोन पूर्व पूर्व बाल-गाद-से सूर्य नीचे लबानोन का क्षेत्र भी है।
H0776 H1382 H3605 H3844 H4217 H8121 H1171 H8478 H2022 H2768 H5704 H0935

חַמָּת
हमात
H2574

तुमने अभी गबाली लोगों के क्षेत्र को नहीं हराया है और अभी बालगाद के पूर्व और हेर्मोन पर्वत के नीचे लबानोन का क्षेत्र भी है।

6 כָּל- יִשְׁבֵי הָהָר מִן הַלְבָנוֹן עַד- מַיִם מְשַׁרְפֵת כָּל- צִידָיִם אֲזָכְרֵם אֹרֵי־שָׁמַיִם
 सब- निवासी पहाड़ी से- लबानोन तक- मिस्पोत-मईम सब- सीदोनी मैं निकालूंगा
[H3605](#) [H3427](#) [H2022](#) [H3844](#) [H5704](#) [H4956](#) [H3605](#) [H6722](#) [H0595](#) [H3423](#)

מַמְנֵי מִן-יִשְׂרָאֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רָק הַפְּלֵה לְיִשְׂרָאֵל בְּנַחֲלָה כְּאִשֶּׁר צִוִּיתִיךָ:
 सामने-से पुत्रों इस्राएल केवल बांट विरासत-में विसासत-में जैसा आजा-दी-मैंने-तुझे
[H6440](#) [H3478](#) [H5307](#) [H5159](#) [H3478](#) [H5159](#) [H3478](#) [H6680](#)

“सिदोन के लोग लबानोन से मिस्पोतमैम तक पहाड़ी प्रदेश में रह रहे हैं। किन्तु मैं इस्राएल के लोगों के लिये इन सभी को बलपूर्वक निकाल बाहर करूँगा। जब तुम इस्राएल के लोगों में भूमि बांटों, तो इस प्रदेश को निश्चय ही याद रखो। इसे वैसे ही करो जैसा मैंने कहा है।

7 וְעַתָּה וְהָאָרֶץ אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת בְּנַחֲלָה לְהַשְׁעֵת הַשְּׂבִטִים וְחֻצֵי הַשְּׂבִיטָה הַמְנַשָּׁה:
 और-अब और-अब को देश इस विरासत-में नौ-को गोत्रों और-आधे गोत्र मनशशे
[H6258](#) [H0853](#) [H0776](#) [H2063](#) [H5159](#) [H8672](#) [H7626](#) [H2677](#) [H7626](#) [H4519](#)

अब, तुम भूमि को नौ परिवार समूह और मनशशे के परिवार समूह के आधे में बाँटों।”

8 עַמּוֹן הָרְאוּבֵנִי וְהַגָּדִי לְקַחוּ נַחֲלָתָם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן
 उसके-साथ रऊबेनी और-गादी लिया विरासत-अपनी जो उनको मूसा पार यरदन
[H1425](#) [H7206](#) [H3947](#) [H5159](#) [H5414](#) [H4872](#) [H5676](#) [H4872](#) [H3383](#)

מִזֶּרְחָה מִן-יְהוּדָה כְּאִשֶּׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה עֵבֶד יְהוָה:
 पूर्व-की-ओर जैसा दिया उनको मूसा दस यहोवा
[H4217](#) [H5414](#) [H4872](#) [H5650](#) [H3068](#)

मैंने मनशशे के परिवार समूह के दूसरे आधे लोगों को पहले ही भूमि दे दी है। मैंने रूबेन के परिवार समूह तथा गाद के परिवार समूह को भी पहले ही भूमि दे दी है। यहोवा के सेवक मूसा ने यरदन नदी के पूर्व का प्रदेश उन्हें दिया।

9 מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת-נַחַל אַרְנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ-הַנָּחַל וְכָל-אֹרֵי-סָבִיב
 अरोईर-से जो पर- तट- नाले नाले और-नगर जो बीच-में नाले और-सब-
[H6177](#) [H8193](#) [H0769](#) [H8432](#) [H3605](#)

הַמַּיִשָּׁר מִדְּבָר-סֵדִיבּוֹן עַד- מִדְּבָר-סֵדִיבּוֹן
 मैदान से-मेदबा-से तट- दीबोन
[H4334](#) [H4311](#) [H5704](#) [H1769](#)

मूसा ने जो भूमि यरदन नदी के पूर्व में उन्हें दी थी, वह यह है: इस भूमि के अन्तर्गत दीबोन संकरी घाटी पर अरोएर से आरम्भ होती है। यह भूमि घाटी के बीच नगर तक लगातार फैली है।

10 וְכָל-אֹרֵי-סָבִיב עָרֵי-סִיחֹן מֶלֶךְ-הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יָרַח מֶלֶךְ-הַשְּׁבִיטָה עַד- גְּבוּל-בְּנֵי עַמּוֹן:
 और-सब और-सब नगर सीहोन राजा एमोरी जो जो राज-करता-था राज-करता-में हेशबोन-में तक- सीमा पुत्रों अम्मोन
[H3605](#) [H5511](#) [H4428](#) [H0567](#) [H2809](#) [H5704](#) [H1366](#) [H5983](#)

एमोरी लोगों का राजा सीहोन जिन नगरों पर शासन करता था, वे इस भूमि में थे। वह राजा हेशबोन नगर में शासन करता था। वह भूमि लगातार उस क्षेत्र तक थी जिसमें एमोरी लोग रहते थे।

11 וְהַגִּלְעָד וְהַגְּשׁוּרִי וְגְבוּל-הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּאכָּתִי אֲשֶׁר-וְכָל-הָהָר הַחַרְמֹן וְכָל-הַבְּשָׁן עַד- סֶלְכָה:
 और-गिलआद गशुरी और-माकाती और-सब और-सब और-सब-हेशबोन-में हेर्मोन पहाड़ और-सब और-सब बाशान तक- सल्का
[H1568](#) [H1366](#) [H1651](#) [H4602](#) [H3605](#) [H2022](#) [H2768](#) [H3605](#) [H1316](#) [H5704](#) [H5548](#)

गिलाद नगर भी उसी भूमि में था। गशूर और माका लगो जिस क्षेत्र में रहते थे वह उसी भूमि में था।

12 כָּל-מַמְלְכוֹת עֹג-בְּבָשָׁן אֲשֶׁר-מֶלֶךְ-בְּעִשְׂתָּרוֹת וּבְאֶדְרָעִי וְהָאֹרֵי-בְּעִשְׂתָּרוֹת וְהָאֹרֵי-בְּעִשְׂתָּרוֹת
 सब- राज्य ओग बाशान-में जो- राज-करता-था राज-करता-में और-एद्रेई-में और-एद्रेई-में बचा-था वह
[H3605](#) [H4468](#) [H5747](#) [H1316](#) [H6252](#) [H0154](#) [H1931](#) [H7604](#)

מִיַּתֵּר מִן-רְפָאִים וְיָכֶם מֹשֶׁה וְיִרְשָׁם:
 से-बचे-हुए रपाईम और-मारा और-मारा मूसा और-निकाला
[H5221](#) [H4872](#) [H3423](#)

राजा ओग का सारा राज्य उसी भूमि में था। राजा ओग बाशान में शासन करता था। पहले वह आशतारोत और एद्रेई में शासन करता था। ओग रपाइ लोगों में से था। पहले ही मूसा ने उन लोगों को हराया था और उनका प्रदेश ले लिया था।

וּמַעֲכָתָּ	גְּשׁוּר	וַיֵּשֶׁב	הַמְּעֵכָתָּי	וְאֶת־	הַגְּשׁוּרִי	אֶת־	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	הַחֲרִישׁוֹ	וְלֹא	13
और-माका	गशूर	और-रहा	माकाती	और-को	गशूरी	को	इसाएल	पुत्रों-ने	निकाला	और-नहीं	
H4601	H1650	H3427	H4602	H0853	H1651	H0853	H3478		H3423	H3808	

בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַזֶּה:
 बीच-में इस दिन तक इस दिन तक
[H7130](#) [H3478](#) [H5704](#) [H3117](#) [H2088](#)

इसाएल के लोग गशूर और माका लोगों को बलपूर्वक निकाल बाहर नहीं कर सके। वे लोग अब तक आज भी इसाएल के लोगों के साथ रहते हैं।

וְנִחַלְתָּ	הוּא	יִשְׂרָאֵל	אֱלֹהֵי	יְהוָה	אֲשֶׁי	נִחַלָּה	נָתַן	לֹא	הַלְוִי	לְשֵׁבֶט	רַק	14
विरासत-उसकी	वह	इसाएल	परमेश्वर	यहोवा	होमबलियां	विरासत	दिया	नहीं	लेवी	गोत्र-को	केवल	
H5159	H1931	H3478	H0430	H3068	H0801	H5159	H5414	H3808	H3878	H7626	H7535	

כְּאִשֶּׁר דָּבַר-לוֹ: ס
 — उससे कहा-था-जैसा
[H1696](#)

केवल लेवी का परिवार समूह ही ऐसा था जिसे कोई भूमि नहीं मिली। उसके बदले उन्हें वे सभी खाद्य भेंटें मिलीं जो इसाएल के परमेश्वर यहोवा को भेंट के रूप में चढ़ाई जाती थीं। यहोवा ने लेवीवंशियों को इसका वचन दिया था।

וַיִּתֵּן	מֹשֶׁה	לְמִטָּה	בְּנֵי־	רְאוּבֵן	לְמִשְׁפַּחָתָם:	15
और-दिया	मूसा	गोत्र-को	पुत्रों-	रऊबेन	कुलों-के-अनुसार	
H5414	H4872	H4294		H7205	H4940	

मूसा ने रूबेन के परिवार समूह से हर एक परिवार समूह को कुछ भूमि दी। यह भूमि है जिसे उन्होंने पाया:

וַיְהִי	לָהֶם	הַגְּבוּל	מֵעֲרֹזֶר	אֲשֶׁר	עַל־	שְׂפַת־	נַחַל	אַרְנוֹן	וְהָעִיר	אֲשֶׁר	בְּתוֹךְ־	16
और-थी	उनकी	सीमा	अरोईर-से	जो	पर-	तट-	नाले	अर्नोन	और-नगर	जो	बीच-में	
H1961	H1992	H1366	H6177			H8193		H0769			H8432	

הַנַּחַל וְכָל־הַמִּישָׁר עַל־מִדְבָּא:
 नाले और-सब-मैदान पर-मेदबा
[H3605](#) [H4334](#) [H4311](#)

अर्नोन की संकरी घाटी के निकट अरोएर से लेकर मेदबा नगर तक की भूमि। इसमें सारा मैदान और दर्रे के बीच का नगर सम्मिलित था।

חֶשְׁבֹּן	וְכָל־	עָרֶיהָ	אֲשֶׁר	בְּמִישָׁר	דִּיבּוֹן	בְּעֵל־בָּמוֹת	מְזֻזָּן	בְּעֵל־וּבֵית	17
हेशबोन	और-सब-	नगर-उसके	जो	मैदान-में	दीबोन	और-बामोत-बाल	और-बैत-मोन	और-बैत-मोन	
H2809	H3605			H4334	H1769	H1120	H11010		

यह भूमि हेशबोन तक लगातार थी। इस भूमि में मैदान के सभी नगर थे। ये नगर दीबोन, बामोतबाल, बैतबाल्मोन,

וַיְהִי וַיְהַצֵּה וַיְקַרְמֵת וַיִּמְפָּעַת:
 और-यहसा और-केदेमोत और-मेपात
[H3096](#) [H6932](#) [H4158](#)

यहसा, कदेमोत, मेपात,

וַקִּירְיָתִים	וְשִׁבְמָה	הַשְּׁחָרְצָרָת	בְּהַר	הָעֵמֶק:	18
और-किर्यातेम	और-सिब्मा	और-सेरेत-हशशहर	पहाड़-में	घाटी	
H7156	H7643	H6890	H2022	H6010	

किर्यातेम, सिब्मा और घाटी में पहाड़ी पर सेरेथशहर,

פְּעוֹר־וּבֵית	וְאַשְׁדּוֹת	הַפְּסִגָּה	הַיִּשְׁמוֹת:	וּבֵית	20
और-बैत-पोर	और-ढलान	पिसगा	और-बैत-यशीमोत	और-बैत-यशीमोत	
H1047	H0794	H6449	H1020		

बैतपोर, पिसगा की पहाड़ियाँ और बेत्यशीमोत थे।

21 וְכָל אֶרֶץ הַמִּישָׁר וְכָל-מְמַלְכוֹת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר מָלַךְ בְּחֶשְׁבֹן 21
 और-सब मैदान और-सब राज्‍य राजा सीहोन एमोरी जो राज-करता-था हेशबोन-में
[H3605](#) [H4334](#) [H3605](#) [H4468](#) [H5511](#) [H4428](#) [H0567](#) [H2809](#)

אֲשֶׁר אֶרֶץ מִשָּׁה וְאֶת-נְשֵׂאֵי מִדְּבָר אֶת-אֵוִי וְאֶת-רְקֵם וְאֶת-צֹר 21
 जिसको मारा मूसा और-को हाकिमों को एवी और-को रेकेम और-को सूर
[H0853](#) [H5221](#) [H4872](#) [H0853](#) [H0853](#) [H4080](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0853](#) [H6698](#)

וְאֶת-חֹר וְאֶת-רְבֵעַ נְסִיבֵי סִיחֹן יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ:
 और-को हूर और-को रेबा हाकिमों सीहोन निवासियों देश
[H0853](#) [H2354](#) [H7254](#) [H5511](#) [H3427](#) [H0776](#)

इस भूमि में मैदान के सभी नगर और एमोरी लोगों के राजा सीहोन ने जिस पर शासन किया था, वह क्षेत्र था। उस राजा ने हेशबोन, पर शासन किया था। किन्तु मूसा ने उसे तथा मिद्यानी लोगों को हराया था। वे लगे एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा थे। (ये सभी प्रमुख सीहोन के साथ युद्ध में लड़े थे।) ये सभी प्रमुख उसी देश में रहते थे।

22 וְאֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעֹר הַקּוֹסֵם הָרְגִוּ מָרָא בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בַּחֶרֶב אֶל-חַלְלֵיהֶם:
 और-को बिलआम बोर पुत्र-बोर टोनहा मारा मारने-ने पुत्रों-इसाएल तलवार-से साथ-हारे-हुओं-उनके
[H0853](#) [H1160](#) [H7080](#) [H2026](#) [H3478](#) [H2719](#) [H0413](#)

इसाएल के लोगों ने बोर के पुत्र बिलाम को हराया। (बिलाम ने भविष्यवाणी के लिये जादू का उपयोग करने का प्रयत्न किया) इसाएल के लोगों ने युद्ध में अनेक लोगों को मारा।

23 וַיְהִי אִתָּהּ
 और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी
[H1961](#) [H1366](#) [H7205](#) [H3383](#) [H1366](#) [H2063](#) [H5159](#) [H7205](#) [H205](#) [H4940](#)

וְהָעָרִים וְהַצְּרִיחֹת:
 और-गावों-उनके नगर

जो प्रदेश रूबेन को दिया गया था, उसका अन्त यरदन नदी के किनारे पर होता था। इसलिये यह भूमि रूबेन के परिवार समूहों को दी गई, इसमें ये सभी नगर और सूची में लिखे सभी खेत सम्मिलित थे।

24 וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ
 और-दिया और-दिया और-दिया और-दिया और-दिया और-दिया और-दिया
[H5414](#) [H4872](#) [H4294](#) [H1410](#) [H1410](#) [H1410](#) [H1410](#) [H4940](#)

यह वह भूमि है जिसे मूसा ने गाद के परिवार समूह को दी। मूसा ने यह भूमि प्रत्येक परिवार समूहों को दिया।

25 וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ
 और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी और-थी
[H1961](#) [H1366](#) [H3270](#) [H3605](#) [H1568](#) [H2677](#) [H0776](#) [H5983](#) [H5704](#)

וְעָרוֹת אֲשֶׁר עָל-פְּנֵי רְבָה:
 अरोईर जो पर-सामने रब्बा
[H6177](#) [H6440](#) [H7237](#)

याजेर का प्रदेश और गिलाद के सभी नगर। मूसा ने उन्हें अम्मोनी लोगों की भूमि का आधा भाग रब्बा के निकट अरोएर तक भी दिया था।

26 וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ וַיְהִי אִתָּהּ
 और-हेशबोन-से और-हेशबोन-से और-हेशबोन-से और-हेशबोन-से और-हेशबोन-से और-हेशबोन-से
[H2809](#) [H5704](#) [H7434](#) [H7434](#) [H7434](#) [H0993](#) [H4266](#) [H5704](#) [H1366](#)

इस प्रदेश में हेशबोन से रामतमिस्पे और बेतोनीम के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस प्रदेश में महनैम से दबीर तक के क्षेत्र सम्मिलित थे।

27	וּבְעֵמֶק और-घाटी-में H6010	בֵּית־הָרָמֹת बैत-हाराम H1027	נְמֹרָהוּבֵית और-बैत-निम्ना H1039	וּסְכּוֹת और-सुक्कोत H5523	וּצְפוֹן और-सापोन H6829	יְתֵר बाकी H4468	מַמְלְכוֹת राज्य H4468	סִיחֹן सीहोन H5511	מֶלֶךְ राजा H4428	חֶשְׁבּוֹן हेशबोन H2809
----	-----------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------

מְזֻרְחָה: पूर्व-की-ओर H4217	יְרֵדָן यरदन H3383	עֵבֶר पार H5676	כְּנֻרֵת किन्नेरेत H3672	יַם־סוּדָן समुद्र-किनारे H3220	קִנְרֵה किनारे H5704	עַד־תֵּק तक-और-सीमा H1366	וְגִבְלֵיהֶם और-सीमा H1366	יְרֵדָן यरदन H3383
------------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

इसमें बेथारम की घाटी, बेत्रिम्ना, सुक्कोत और सापोन सम्मिलित थे। बाकी का वह सारा प्रदेश जिस पर हेशबोन के राजा सीहोन ने शासन किया था, इसमें सम्मिलित था। यह भूमि यरदन नदी के पूर्व की ओर है। यह भूमि लगातार गलील झील के अन्त तक फैली है।

28	זֹאת यह H2063	נַחֲלָת विरासत H5159	בְּנֵי־פִזְזִים पुत्रों- H1410	גַּד गाद H1410	לְמִשְׁפַּחָתָם कुलों-के-अनुसार H4940	הָעָרִים नगर H4940	וְחַצְרֵיהֶם: और-गांवों-उनके H4940
----	---------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	--------------------------	--

यह सारा प्रदेश वह है जिसे मूसा ने गाद के परिवार समूह को दिया था। इस भूमि में ये सारे नगर थे जो सूची में हैं। मूसा ने वह भूमि हर एक परिवार समूह को दी।

29	וַיִּתֵּן और-दिया H5414	מֹשֶׁה मूसा H4872	לְחָצֵי आधे-को H2677	שִׁבְט गोत्र H7626	מְנַשֶּׁה मनश्शे H4519	וַיְהִי और-थी H1961	לְחָצֵי आधे-को H2677	מִטָּה गोत्र H4294	בְּנֵי־פִזְזִים पुत्रों- H4519	מְנַשֶּׁה मनश्शे H4519	לְמִשְׁפַּחָתָם: कुलों-के-अनुसार H4940
----	-------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--

यह वह भूमि है जिसे मूसा ने मनश्शे परिवार समूह के आधे लोगों को दिया। मनश्शे के परिवार समूह के लोगों ने यह भूमि पाई:

30	וַיְהִי और-थी H1961	גְּבוּלָם सीमा-उनकी H1366	מִמְחֵנִים महनैम-से H4266	כָּל־הַבָּשָׁן सब-बाशान H1316	כָּל־הַבָּשָׁן सब-बाशान H1316	וּמְמִלְכוֹת राज्य H4468	עֹג ओग H5747	מֶלֶךְ־רָא राजा- H4428	הַבָּשָׁן बाशान H1316	וְכָל־ और-सब- H3605
חַנָּת गांव H2333	יָאֵר याईर H2971	אֲשֶׁר जो H1316	בְּבָשָׁן बाशान-में H1316	שָׁשִׁים साठ H8346	עִיר: नगर H8346					

भूमि महनैम से आरम्भ हुई। इसमें वह पूरा बाशान अर्थात् जिस सारे प्रदेश पर बाशान का राजा ओग शासन करता था और बाशान में याईर के सभी नगर सम्मिलित थे। (सब मिलाकर साठ नगर थे।)

31	וַחֲצֵי और-आधा H2677	הַגִּלְעָד गिलाद H1568	וְעִשְׁתָּרוֹת और-अशतारोत H6252	וְאֶדְרָעִי और-एद्रेई H0154	עָרֵי नगर H4468	מַמְלְכוֹת राज्य H4468	עֹג ओग H5747	בְּבָשָׁן बाशान-में H1316	לְבָנֵי पुत्रों-को H4353	מְכִיר माकीर H4353	בֶּן־ पुत्र- H4353
מְנַשֶּׁה मनश्शे H4519	לְחָצֵי आधे-को H2677	בְּנֵי־ पुत्रों- H4353	מְכִיר माकीर H4353	לְמִשְׁפַּחָתָם: कुलों-के-अनुसार H4940							

इस भूमि में आधा गिलाद, अशतारोत और एद्रेई सम्मिलित थे। (गिलाद, अशतारोत और एद्रेई वे नगर थे जिसमें ओग रहता था।) यह सारा प्रदेश मनश्शे के पुत्र माकीर के परिवार को दिये गए। इन आधे पुत्रों ने यह प्रदेश पाया।

32	אֵלֶּה ये H0428	אֲשֶׁר־ जिनको- H5157	נָחַל विरासत-दिया H4872	מֹשֶׁה मूसा H4872	בְּעַרְבֹת मैदानों-में H6160	מוֹאָב मोआब H4124	מֵעֵבֶר पार H5676	לְיֵרֵדָן यरदन H3383	יְרִיחוֹ यरीहो H3405	מְזֻרְחָה: पूर्व-की-ओर H4217	ס — H4217
----	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------

मूसा ने मोआब के मैदान में इन परिवार समूह को यह पूरी भूमि दी। यह यरीहो के पूर्व में यरदन नदी के पार थी।

33	וּלְשֵׁבֶט और-गोत्र-को H7626	הַלְוִי लेवी H3878	לֹא־ नहीं- H3808	נָתַן दिया H5414	מֹשֶׁה मूसा H4872	נַחֲלָה विरासत H5159	יְהוָה यहोवा H3068	אֱלֹהֵי परमेश्वर H0430	יִשְׂרָאֵל इसाएल H3478	הוא वह H1931	כְּאֲשֶׁר जैसा H5159
רָבֵר कहा H1696	לְהֵם: उनसे H1696										

किन्तु मूसा ने लेवी परिवार समूह को कोई भूमि नहीं दी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह वचन दिया कि वह स्वयं लेवी के परिवार समूह की भेंट के रूप में होगा।